

**BACHELOR'S PREPARATORY PROGRAMME
(B.P.P.)**

10922

Term-End Examination

December, 2010

**PCO-01 : PREPARATORY COURSE IN
COMMERCE**

Time : 2 Hours

Maximum Marks : 50

Note : *All questions are compulsory, each of which carries one mark.*

1. Which of the following equations is correct ?
 - (1) Capital = Assets – Liabilities
 - (2) Capital = Assets + Liabilities
 - (3) Assets = Capital × Liabilities
 - (4) Liabilities = Assets + Capital

2. The concept of conservatism takes into account :
 - (1) All expected incomes and losses
 - (2) All expected losses but no expected incomes
 - (3) All expected incomes but no losses
 - (4) No expected profits and losses

3. Buying and selling activity is called :
 - (1) Commerce
 - (2) Trade
 - (3) Business
 - (4) Industry

4. Book- Keeping is :
 - (1) Identifying, measuring, recording and classifying business transactions
 - (2) Analysing the business transactions
 - (3) Classifying the business transactions only
 - (4) Interpreting the business transactions only

5. Purchase book is meant for recording :
- (1) All types of credit purchases (2) All types of purchases
(3) All cash purchases (4) Credit purchases of merchandise only
6. Sales of goods to Anil for cash should be debited to :
- (1) Goods A/C (2) Cash A/C (3) Sales A/C (4) Anil's A/C
7. Which of the following statements is false ?
- (1) Process of journalising is called posting.
(2) Capital account is a personal account.
(3) Ledger is the principal book of entry.
(4) Goodwill account is a real account.
8. The debit balance of a nominal account shows :
- (1) Gross profit (2) Net profit
(3) Gains, incomes etc. (4) Expenses, losses etc.
9. An example of representative personal account is :
- (1) Wages (2) Salary
(3) Prepaid expenses (4) Cash
10. Single entry system of book-keeping is a :
- (1) system of incomplete records
(2) system of reliable records
(3) system of providing true financial position
(4) system of helping in locating errors.
11. Furniture purchased should be debited to :
- (1) Goods A/C (2) Premises A/C
(3) Furniture A/C (4) Equipment A/C

12. Which of the following account is a nominal account ?
- (1) Capital A/C (2) Ram's A/C
(3) Vehicle A/C (4) Wages A/C
13. Ledger folio is the column in :
- (1) Cash book (2) Journal
(3) Sales book (4) All of the above
14. The debit balance of a personal account indicates :
- (1) Amount receivable (2) Amount payable
(3) Cash in hand (4) Cash at bank
15. Which of the following errors shall affect the trial balance?
- (1) Error of principle (2) Compensatory errors
(3) Error of complete omission (4) Error of partial omission
16. Returns outwards Book is kept to record :
- (1) Credit purchases of goods (2) Credit sales of goods
(3) Returns of goods sold (4) Returns of goods purchased
17. Prepaid insurance is :
- (1) A liability (2) An asset (3) A gain (4) A loss
18. The balance of petty cash book is :
- (1) An income (2) A liability (3) An expense (4) An asset
19. Closing stock is valued at :
- (1) Cost price or market price whichever is less
(2) Cost price
(3) Market price
(4) Cost price or market price whichever is more

20. Profit and loss account shows :
- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| (1) Accuracy of Ledger accounts | (2) Capital employed in a business |
| (3) Financial position of a business | (4) Profit earned by a business |
21. Rent outstanding account is :
- | | |
|------------------|---------------------------------|
| (1) Personal A/C | (2) Real A/C |
| (3) Nominal A/C | (4) Representative personal A/C |
22. Which of the following will not be shown in balance sheet?
- | | |
|---------------|--------------------------|
| (1) Machinery | (2) Contingent liability |
| (3) Debtors | (4) Closing stock |
23. Debit balance of suspense A/C will be shown on :
- (1) the credit side of Trading A/C
 - (2) the debit side of Trading A/C
 - (3) the liabilities side of Balance sheet
 - (4) the Assets side of Balance sheet
24. All transactions are recorded first in the journal, therefore, it is called book of :
- | | |
|----------------------|------------------------|
| (1) Original entries | (2) Adjustment entries |
| (3) Transfer entries | (4) Closing entries |
25. Impersonal accounts mean :
- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| (1) Only Real accounts | (2) Only Nominal accounts |
| (3) Personal accounts | (4) Real and Nominal accounts |
26. Trial Balance includes :
- (1) Only Real accounts
 - (2) Real, Personal and Nominal accounts
 - (3) Only Personal accounts
 - (4) Only Nominal accounts

27. Discount Allowed accounts has :
- (1) A debit balance
 - (2) A credit balance
 - (3) No balance
 - (4) Both the balance i.e. debit balance and credit balance
28. Which of the following will increase by a credit entry?
- (1) Bank overdraft
 - (2) Goodwill
 - (3) Purchases
 - (4) Sales returns
29. The term book of prime entry is normally used for :
- (1) Ledger
 - (2) Journal
 - (3) Sales Book
 - (4) Purchases Book
30. Which of the following is not entered in the books of accounts ?
- (1) Cash discount
 - (2) Commission received
 - (3) Interest received
 - (4) Trade discount
31. Preliminary expenses are an example of :
- (1) Capital expenditure
 - (2) Revenue expenditure
 - (3) Deferred Revenue expenditure
 - (4) Capital loss
32. Repairs of office building will be shown in :
- (1) Manufacturing A/C
 - (2) Trading A/C
 - (3) Profit and Loss A/C
 - (4) Balance sheet
33. Which of the following items are not charged to Profit and Loss account?
- (1) Carriage inwards
 - (2) Carriage outwards
 - (3) Bad-debts
 - (4) Depreciation on furniture

34. Depreciation on machinery is shown in :
- | | |
|-------------------------|-------------------|
| (1) Manufacturing A/C | (2) Trading A/C |
| (3) Profit and Loss A/C | (4) Balance sheet |
35. Cost of goods sold is :
- | |
|--|
| (1) Cost of goods produced + Opening stock – Closing stock |
| (2) Sales + Closing stock – Opening stock |
| (3) Sales – Closing stock + Opening stock |
| (4) Purchases – Opening stock + Closing stock |
36. If purchases are Rs. 42,300; sales Rs.67,450; wages Rs.12,000; opening stock Rs.10,550; and closing stock Rs.12,000; the Gross Profit would be :
- | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (1) Rs.15,100 | (2) Rs.14,800 | (3) Rs.14,300 | (4) Rs.14,600 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
37. Additional money brought into business by the proprietor is a
- | | |
|---------------------|---------------------|
| (1) Capital receipt | (2) Revenue receipt |
| (3) Capital profit | (4) Revenue profit |
38. Balance sheet is a statement containing the assets and liabilities of a firm.
- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (1) On a particular date | (2) For a particular period |
| (3) During a particular period | (4) In the form of an accounts |
39. Payment by cheque should be debited to :
- | | |
|--------------------|--------------|
| (1) Cheque A/C | (2) Cash A/C |
| (3) Customer's A/C | (4) Bank A/C |
40. A promissory note is written by the :
- | | |
|-----------|----------------------|
| (1) Buyer | (2) Seller |
| (3) Bank | (4) All of the above |

41. Credit purchase of furniture will be recorded in :
- | | |
|-------------------|-----------------------|
| (1) Cash book | (2) Purchases Journal |
| (3) Sales Journal | (4) Journal proper |
42. Cash discount is given to the customers on :
- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| (1) Bulk purchases | (2) Cash purchases |
| (3) Payment before due date | (4) Credit purchases |
43. The packing expenses are shown on the :
- | |
|---|
| (1) Debit side of profit and loss A/C |
| (2) Debit side of trading A/C |
| (3) Debit side of manufacturing A/C |
| (4) Liabilities side of the balance sheet |
44. Which of the following items is debited to trading account ?
- | | |
|------------------------|------------------------|
| (1) Wages and salaries | (2) Salaries and wages |
| (3) Salaries | (4) Bonus to employees |
45. Income tax payable is :
- | | |
|-----------------|----------------|
| (1) A liability | (2) A loss |
| (3) An Asset | (4) An expense |
46. Bank overdraft is a :
- | | |
|-------------------|-----------------------|
| (1) Current Asset | (2) Current Liability |
| (3) Fixed Asset | (4) Fixed Liability |
47. Interest on drawings is :
- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| (1) Expenditure for the business | (2) Loss for the business |
| (3) Gain for the business | (4) Receipt for the business |

48. Outstanding expenses given in trial balance will be shown in :

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| (1) Trading A/C | (2) Profit and Loss A/C |
| (3) Manufacturing A/C | (4) Balance sheet |

49. A balance sheet shows :

- (1) Only Current Assets
- (2) Only Current Liabilities
- (3) Only Fixed Assets and Fixed Liabilities
- (4) All Assets and All Liabilities

50. Balance of profit and loss account reflects :

- | | |
|------------------|----------------------------|
| (1) Gross Profit | (2) Gross Loss |
| (3) Net Profit | (4) Net Profit or Net Loss |
-

स्नातक प्रारंभिक कार्यक्रम
(बी.पी.पी.)

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2010

पी.सी.ओ.-01 : वाणिज्य में प्रारंभिक पाठ्यक्रम

समय : 2 घण्टे

अधिकतम अंक : 50

नोट : सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है।

1. निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है?

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| (1) पूंजी = परिसंपत्तिया - देयताएं | (2) पूंजी = परिसंपत्तियां + देयताएं |
| (3) परिसंपत्तिया = पूंजी × देयताएं | (4) देयताएं = परिसंपत्तिया + पूंजी |

2. अनुदारवादिता की संकल्पना के अनुसार हिसाब रखा जाता है :

- (1) सभी अपेक्षित आयों एवं हानियों का
- (2) सभी अपेक्षित हानियों का परन्तु अपेक्षित आयों का नहीं
- (3) सभी अपेक्षित आयों का परन्तु हानियों का नहीं
- (4) किन्हीं भी लाभों एवं हानियों का नहीं

3. क्रय तथा विक्रय क्रिया कहलाती है :

- | | | | |
|-------------|-------------|-------------|------------|
| (1) वाणिज्य | (2) व्यापार | (3) व्यवसाय | (4) उद्योग |
|-------------|-------------|-------------|------------|

4. बही खाता से तात्पर्य है :
- (1) व्यावसायिक लेनदेनों को पहचानना, मापना, रिकॉर्ड करना तथा वर्गीकरण करना
 - (2) व्यावसायिक लेनदेनों का विश्लेषण करना
 - (3) केवल व्यावसायिक लेनदेनों का वर्गीकरण करना
 - (4) केवल व्यावसायिक लेनदेनों की व्याख्या करना
5. क्रय बही रिकार्ड करने के लिए है :
- (1) सभी प्रकार के उधार क्रय
 - (2) सभी प्रकार के क्रय
 - (3) सभी नकद क्रय
 - (4) केवल माल के उधार क्रय
6. अनिल को बेचे गए नकद माल को डेबिट किया जाना चाहिए :
- (1) माल खाते को
 - (2) रोकड़ खाते को
 - (3) विक्रय खाते को
 - (4) अनिल के खाते को
7. निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
- (1) जर्नल में प्रविष्टि करने की प्रक्रिया को खतौनी करना कहा जाता है।
 - (2) पूंजी खाता एक व्यक्तिगत खाता है।
 - (3) खाता बही प्रविष्टि की मुख्य बही है।
 - (4) ख्याति खाता एक वास्तविक खाता है।
8. आय-व्यय खाते का डेबिट शेष दर्शाता है :
- (1) सकल लाभ
 - (2) निवल लाभ
 - (3) लाभार्जन, आय, आदि
 - (4) व्यय, हानि, आदि
9. प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते का एक उदाहरण है :
- (1) मजदूरी
 - (2) वेतन
 - (3) प्रदत्त व्यय
 - (4) रोकड़

10. बही खाता की इकहरा लेखा प्रणाली है :
- (1) अपूर्ण रिकार्डों की एक प्रणाली
 - (2) निर्भरतापूर्ण रिकार्डों की एक प्रणाली
 - (3) सही वित्तीय स्थिति प्रदान करने की एक प्रणाली
 - (4) अशुद्धियां ज्ञात करने की एक प्रणाली
11. क्रय किए गए फर्नीचर को डेबिट किया जाना चाहिए :
- (1) माल खाते को
 - (2) भवन खाते को
 - (3) फर्नीचर खाते को
 - (4) उपस्कर खाते को
12. निम्नलिखित में से कौन सा खाता आय-व्यय खाता है?
- (1) पूंजी खाता
 - (2) राम का खाता
 - (3) वाहन खाता
 - (4) मजदूरी खाता
13. लेजर फोलियो कॉलम होता है :
- (1) रोकड़ बही में
 - (2) जर्नल में
 - (3) विक्रय बही में
 - (4) उपर्युक्त सभी में
14. व्यक्तिगत खाते का डेबिट शेष इंगित करता है :
- (1) प्राप्य राशि
 - (2) देय राशि
 - (3) रोकड़ शेष
 - (4) बैंक में रोकड़
15. निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्धि तलपट को प्रभावित करेगी ?
- (1) सैद्धान्तिक अशुद्धि
 - (2) परिपूरक अशुद्धि
 - (3) पूर्ण लोप की अशुद्धि
 - (4) अपूर्ण लोप की अशुद्धि
16. निर्गत वापसी बही निम्नलिखित में से किसे रिकार्ड करने के लिए रखी जाती है?
- (1) माल के उधार क्रय को
 - (2) माल के उधार विक्रय को
 - (3) बेचे गए माल की वापसी को
 - (4) खरीदे गए माल की वापसी को

17. प्रदत्त बीमा व्यय है :
- | | |
|------------------------|-------------------|
| (1) एक देयता | (2) एक परिसंपत्ति |
| (3) एक लाभार्जन (gain) | (4) एक हानि |
18. खुदरा रोकड़ बही का शेष है :
- | | |
|-------------|-------------------|
| (1) एक आय | (2) एक देयता |
| (3) एक व्यय | (4) एक परिसंपत्ति |
19. अन्तिम स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है :
- (1) लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर
 - (2) लागत मूल्य के आधार पर
 - (3) बाजार मूल्य के आधार पर
 - (4) लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो, के आधार पर
20. लाभ-हानि खाता दर्शाता है :
- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| (1) लेजर खातों की शुद्धता को | (2) व्यवसाय में लगी पूंजी को |
| (3) व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को | (4) व्यवसाय में हुए लाभ को |
21. अदत्त किराया खाता है :
- | | |
|--------------------|------------------------------|
| (1) व्यक्तिगत खाता | (2) वास्तविक खाता |
| (3) आय-व्यय खाता | (4) प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता |
22. निम्नलिखित में से किसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाएगा ?
- | | |
|-----------------|------------------------|
| (1) मशीनरी को | (2) प्रासंगिक देयता को |
| (3) देनदारों को | (4) अंतिम स्टॉक को |
23. उच्चत खाते के डेबिट शेष को दिखाया जाएगा :
- | | |
|--------------------------------------|--|
| (1) व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में | (2) व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में |
| (3) बैलेंस शीट के देयता पक्ष में | (4) बैलेंस शीट के परिसंपत्तियां पक्ष में |

24. सभी लेनदेनों को पहले जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है अतः उसे कहा जाता है :
- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| (1) मूल प्रविष्टियों की बही | (2) समायोजन प्रविष्टियों की बही |
| (3) अंतरण प्रविष्टियों की बही | (4) अंतिम प्रविष्टियों की बही |
25. अव्यक्तिगत खातों से तात्पर्य है :
- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| (1) केवल वास्तविक खाते | (2) केवल आय-व्यय खाते |
| (3) व्यक्तिगत खाते | (4) वास्तविक तथा आय-व्यय खाते |
26. तलपट में शामिल किया जाता है :
- | |
|--|
| (1) केवल वास्तविक खातों को |
| (2) वास्तविक, व्यक्तिगत तथा आय-व्यय खातों को |
| (3) केवल व्यक्तिगत खातों को |
| (4) केवल आय-व्यय खातों को |
27. Discount Allowed A/C का शेष होता है :
- | | |
|------------------|-------------------------------|
| (1) डेबिट शेष | (2) क्रेडिट शेष |
| (3) कुछ शेष नहीं | (4) डेबिट व क्रेडिट शेष दोनों |
28. निम्नलिखित में से कौन सी मद में क्रेडिट प्रविष्टि से वृद्धि होगी ?
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| (1) बैंक ओवर-ड्राफ्ट में | (2) ख्याति में |
| (3) क्रय में | (4) विक्रय वापसी में |
29. 'मूल प्रविष्टि की बही' शब्द सामान्यतया किस बही के लिए उपयोग किया जाता है ?
- | | |
|----------------|--------------|
| (1) लेजर | (2) जर्नल |
| (3) विक्रय बही | (4) क्रय बही |
30. निम्नलिखित में से किसे खाता बहियों में दर्ज नहीं किया जाता ?
- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| (1) नकद छूट | (2) प्राप्त हुई कमीशन |
| (3) प्राप्त हुआ ब्याज | (4) व्यापारिक छूट |

31. प्रारम्भिक व्यय उदाहरण है एक :
- | | |
|--------------------------|---------------------|
| (1) पूंजीगत व्यय का | (2) आयगत व्यय का |
| (3) अस्थिगत आयगत व्यय का | (4) पूंजीगत हानि का |
32. कार्यालय भवन के मरम्मत व्यय को दिखाया जाता है :
- | | |
|------------------------|----------------------|
| (1) विनिर्माण खाते में | (2) व्यापार खाते में |
| (3) लाभ-हानि खाते में | (4) बैलेंस शीट में |
33. निम्नलिखित में से किसे लाभ-हानि खाते में नहीं दिखाया जाता ?
- | | |
|-------------------|----------------------------|
| (1) आगत वाहन व्यय | (2) निर्गत वाहन व्यय |
| (3) डूबत ऋण | (4) फर्नीचर पर मूल्य-ह्रास |
34. मशीनों पर लगाया गया मूल्य-ह्रास दिखाया जाता है :
- | | |
|------------------------|----------------------|
| (1) विनिर्माण खाते में | (2) व्यापार खाते में |
| (3) लाभ-हानि खाते में | (4) बैलेंस शीट में |
35. बेचे गए माल की लागत बराबर होती है :
- | |
|--|
| (1) उत्पादित माल की लागत + प्रारंभिक स्टॉक - अंतिम स्टॉक |
| (2) विक्रय + अंतिम स्टॉक - प्रारंभिक स्टॉक |
| (3) विक्रय - अंतिम स्टॉक + प्रारंभिक स्टॉक |
| (4) क्रय - प्रारंभिक स्टॉक + अंतिम स्टॉक |
36. यदि क्रय है 42,300 रु., विक्रय 67,450 रु., मजदूरी 12,000 रु., प्रारंभिक स्टॉक 10,550 रु., तथा अंतिम स्टॉक 12,000 रु. तो सकल लाभ होगा :
- | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (1) 15,100 रु. | (2) 14,800 रु. | (3) 14,300 रु. | (4) 14,600 रु. |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
37. मालिक द्वारा व्यापार में और राशि लाने को कहा जाता है :
- | | | | |
|--------------------|------------------|-----------------|--------------|
| (1) पूंजी प्राप्ति | (2) आगम प्राप्ति | (3) पूंजीगत लाभ | (4) आयगत लाभ |
|--------------------|------------------|-----------------|--------------|

38. बैलेंस शीट एक ऐसा विवरण है जिसमें एक फर्म की परिसंपत्तियों तथा देयताओं को दिखाया जाता है :

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| (1) एक विशेष तिथि पर | (2) एक विशेष अवधि के लिए |
| (3) एक विशेष अवधि के दौरान | (4) एक खाते के रूप में |

39. बैंक द्वारा किए गए भुगतान को डेबिट किया जाना चाहिए :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| (1) बैंक खाते को | (2) रोकड़ खाते को |
| (3) ग्राहक के खाते को | (4) बैंक खाते को |

40. एक प्रोनोट लिखा जाता है :

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| (1) क्रेता द्वारा | (2) विक्रेता द्वारा |
| (3) बैंक द्वारा | (4) उपर्युक्त सभी के द्वारा |

41. फर्नीचर के उधार क्रय को रिकार्ड किया जाता है :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| (1) रोकड़ बही में | (2) क्रय जर्नल में |
| (3) विक्रय जर्नल में | (4) जर्नल विशेष में |

42. ग्राहकों को नकद छूट दी जाती है :

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| (1) भारी क्रय पर | (2) नकद क्रय पर |
| (3) देय तिथि से पूर्व भुगतान करने पर | (4) उधार क्रय पर |

43. पैकिंग व्यय दिखाए जाते हैं :

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| (1) लाभ-हानि खाते के डेबिट पक्ष में | (2) व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में |
| (3) विनिर्माण खाते के डेबिट पक्ष में | (4) बैलेंस शीट के देयता पक्ष में |

44. निम्नलिखित में से कौन सी मद व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में दिखाई जाती है?

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| (1) मजदूरी एवं वेतन | (2) वेतन एवं मजदूरी |
| (3) वेतन | (4) कर्मचारियों को दिया गया बोनस |

45. देय आय कर है एक :
- | | |
|----------------|----------|
| (1) देयता | (2) हानि |
| (3) परिसंपत्ति | (4) व्यय |
46. बैंक ओवर ड्राफ्ट है एक :
- | | |
|-----------------------|------------------|
| (1) चालू परिसंपत्ति | (2) चालू देयता |
| (3) स्थायी परिसंपत्ति | (4) स्थायी देयता |
47. आहरण पर ब्याज है :
- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| (1) व्यवसाय के लिए एक खर्च | (2) व्यवसाय के लिए एक हानि |
| (3) व्यवसाय के लिए एक लाभ | (4) व्यवसाय के लिए एक प्राप्ति |
48. तलपट में दी हुई अदत्त व्यय की राशि को दिखाया जाएगा :
- | | |
|------------------------|-----------------------|
| (1) व्यापार खाते में | (2) लाभ-हानि खाते में |
| (3) विनिर्माण खाते में | (4) बैलेंस शीट में |
49. बैलेंस शीट में दिखाई जाती है :
- | |
|--|
| (1) केवल चालू परिसंपत्तियाँ |
| (2) केवल चालू देयताएं |
| (3) केवल स्थायी परिसंपत्तियाँ एवं स्थायी देयताएं |
| (4) सभी परिसंपत्तियाँ एवं देयताएं |
50. लाभ-हानि खाते का शेष होता है :
- | |
|-------------------------------------|
| (1) सकल लाभ की राशि |
| (2) सकल हानि की राशि |
| (3) निवल लाभ की राशि |
| (4) निवल लाभ अथवा निवल हानि की राशि |